



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 1979/पौष 25, 1900

No. 19]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 15, 1979/PAUSA 25, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 5 आईटीसी/(पीएम)/79

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1979

विषय : स्वर्ण आभूषण निर्यात प्रतिपूर्ति योजना

मि० सं० 12/4/78-ईपीसी.—तथा संशोधित स्वर्ण आभूषण निर्यात प्रतिपूर्ति योजना का विवरण देने हुए वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 58-आईटीसी(पीएम)/78, दिनांक 17 अगस्त, 1978 की धोर ध्यान दिया जाता है।

2. पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना दिनांक 17 अगस्त, 1978 के परिशिष्ट में प्रागे निम्नलिखित संशोधित किए जाएंगे :—

क्रम सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3

1 कड़िका 1 विद्यमान कड़िका को संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाएगा :—

“इस योजना के अंतर्गत स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 में यथा-परिभाषित फेब्रुअरी स्वर्ण आभूषण एवं मखे (मिक्के को छोड़कर) की ही अनुमति दी जाएगी। इसमें जटिल मखे भी शामिल हैं। निर्यात के लिए मखे कम से कम 0.5833 फाइननेस की स्वर्ण

1 2 3

की शुद्धता की होनी चाहिए जो कि 14 कैरट के समरूप हो”।

2. कड़िका 7 अन्त में निम्न को जोड़ा जाएगा :—

“जटिल मखों के मामले में शुद्ध स्वर्ण, रत्नों या मणियों या मोतियों और अन्य बहुमूल्य धातु यदि कोई हो तो उनके निर्माण में प्रयोग की गई हो, का कुल मूल्य 83.33 रुपये या इससे कम होना चाहिए।”

3. कड़िका 12 अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

“जटिल मखों के मामले में उपर्युक्त अनुसार सोने की मात्रा के साथ पोत-परिवहन बिल में उन रत्नों/मणियों/मोतियों का विवरण/भार/मूल्य प्रदर्शित होना चाहिए जो उन मखों के विनिर्माण में उपयोग किए गए हैं और सोने में मिश्रण के लिए उपयोग की गई किसी अन्य बहुमूल्य धातु का भार/मूल्य भी प्रदर्शित होना चाहिए।”

4. वर्तमान पैरा 20 के बाद निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा :—

“20-क(1) जटिल मखों के मामले में उपर्युक्त अनुसार सोने की प्रतिपूर्ति सीमा-शुल्क विभाग द्वारा यथानिर्धारित निर्धारित मख की शुद्ध सोने की मात्रा को 80 प्रतिशत तक सीमित होगी ;

1	2	3
	(2)	"मीनाकारी" मर्बों के मामले में इस योजना के अंतर्गत आयात प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गणना के अनुसार शुद्ध सोने के भार में 3 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।
	(3)	ऊपर के मामलों में मात्रा एवं मूल्य दोनों ही निर्धारण सरल जारी रहेंगे।"

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO : 5-ITC(PN)/79

New Delhi, the 15th January, 1979

Subject : Gold Jewellery Export Replenishment Scheme

F. No. 12/4/78-EPC].—Attention is invited to Department of Commerce Public Notice No. 59-ITC(PN)/78, dated the 17th August, 1978, giving details of the Gold Jewellery Export Replenishment Scheme, as amended.

2. The following further amendments shall be made to the Appendix to the aforesaid Public Notice, dated the 17th August, 1978 :—

Sl. No.	Reference	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	Para 1	The existing para shall be amended to read as under :— "Export of gold ornaments and articles (other than coin) as defined in the Gold (Control) Act, 1968 will alone be allowed under the scheme. It includes studded items. The items for export should be made of gold of purity not less than 0.5833 fineness which corresponds to 14 carats."
2.	Para 7	The following shall be added at the end :— "In the case of studded items, the total value of pure gold, stones or gems or pearls as well as other precious metal if any, used in their manufacture, should be Rs. 83.33 or less."
3.	Para 12	The following shall be added at the end :— "In the case of studded items, the shipping bill should show, in addition to the gold content as above, the description/weight/value of the stones/gems/pearls used in manufacture as well as the weight/value of any other precious metal used for alloying the gold."
4.		After the existing para 20, the following new para shall be inserted :— "20-A(i) In the case of studded items, the replenishment of gold as above will be limited to 80% of the pure gold content of the item exported as assessed by the Customs; (ii) In the case of "Meenakari" items, a deduction of 3% will be made in the weight of pure gold as calculated above for the purpose of import replenishment under the scheme.

1	2	3
	(iii)	In the above cases, both quantity and value will continue to be limiting factors."

सार्वजनिक सूचना सं० 6-आईटीसी(पीएन)/79

विषय : 1978-79 की आयात नीति—अखबारी कागज की

आयात नीति

वि० सं० आईपीसी/3/15/78.—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 22-आईटीसी(पीएन)/78 दिनांक 3 अप्रैल 1978 के अधीन प्रकाशित 1978-79 की आयात नीति के परिशिष्ट 8 की प्रविष्टि सं० 49 की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसके अनुसार अखबारी कागज का आयात भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के माध्यम से सरणीबद्ध है।

2. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाए कि भारतीय राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली के माध्यम से अखबारी कागज के आयात का मार्गीकरण केवल ऐसे अखबारों/पत्रिकाओं के प्रकाशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए है जो भारत के अखबारों के पंजीयक के पास पंजीकृत हैं; आयातित माग का वितरण भारत के अखबारों के पंजीयक की सलाह से किया जाता है।

3. प्राप्त वास्तविक उपयोगता (प्रोप्रीएटरी) जिन्हें अपने प्रोप्रीएटरी उत्पादन कार्यक्रमों के लिए कच्चे माल के रूप में ग्लेज्ड मैकेनिकल प्रिंटिंग पेपर की जरूरत है वे खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत वैशिष्ट आयात नीति 1978-79 के परिशिष्ट 10 की मद सं० 1 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सीधे ही आयात कर सकते हैं। सामा शुल्क लगाने के लिए इस प्रकार आयात किया गया ग्लेज्ड मैकेनिकल प्रिंटिंग पेपर, एस टी सी के माध्यम से सरणीबद्ध किए गए अखबारी कागज के आयात के समुल्लेख नहीं संपादित जाएगा, इससे ध्यान में रखा जाए।

PUBLIC NOTICE NO. 6-ITC(PN)/79

Subject : Import Policy 1978-79—Import of Newsprint.

[F. No. IPC/3/15/78].—Attention is invited to entry No. 49 of Appendix 8 of the Import Policy 1978-79, published under the Department of Commerce Public Notice No. 22-ITC(PN)/78 dated the 3rd April, 1978; according to which import of Newsprint is canalised through the State Trading Corporation of India Ltd., New Delhi.

2. It may be clarified in this connection that canalisation of import of Newsprint through the STC, New Delhi, is only to meet the requirements for printing such newspapers/periodicals as are registered with the Registrar of Newspapers for India; the imported material is distributed on the advice of the Registrar of Newspapers for India.

3. Eligible Actual Users (Industrial), who require glazed mechanical printing paper as raw material for their industrial production activities, can make imports directly under Open General Licence, vide item No. 1 of Appendix 10 of the Import Policy, 1978-79, subject to the conditions laid down therein. Import made thus of glazed mechanical printing paper will not be on par with the imports of Newsprint canalised through the STC; for the purpose of levy of customs duty. This may be noted.

सार्वजनिक सूचना सं० आई टी सी (पीएन)/78

विषय: आयात नीति 1978-79, सोडा ऐश का आयात

मि० सं० आईटीसी/3/15/78):—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना संख्या-22 आई टी सी (पी एन)/78 दिनांक 3 अप्रैल, 1978 के अन्तर्गत प्रकाशित समय समय पर यथा संशोधित आयात नीति 1978-79 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने के पश्चात यह निश्चय किया गया है कि सोडा ऐश आयात की प्रसरणीकृत किया जाए। तदनुसार आयात नीति 1978-79 के परिशिष्ट 8 में प्रविष्टि संख्या-41-क को हटा दिया जाएगा।

3. वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा सोडा ऐश का आयात, अब आयात नीति, 1978-79 के परिशिष्ट 10 में मद संख्या 1 द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत, उसमें निहित शर्तों के अधीन किया जा सकता है।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत माल के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक), वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना संख्या-31 आई टी सी(पीएन)/78, दिनांक 15 मई, 1978 में यथा निहित वास्तविक उपयोक्ताओं के संकेत

की या सहकारी समिति जिसका वह सदस्य है, उसकी सेवाओं का भी उपयोग कर सकता है।

का० वें० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

PUBLIC NOTICE NO. : 7-ITC(PN)/79

Subject : Import Policy, 1978-79—Import of Soda Ash.

F. No. IPC/3/15/78.— Attention is invited to the Import Policy, 1978-79, published under the Ministry of Commerce Public Notice, No. 22-ITC(PN)/78, dated the 3rd April, 1978, as amended from time to time.

2. On a review of the situation, it has been decided to de-canalise the import of soda ash. Accordingly, entry No. 41-A in Appendix 8 of the Import Policy, 1978-79, shall be deleted.

3. Import of soda ash can now be made by Actual Users (Industrial) under Open General Licence vide Item No. 1 in Appendix 10 of the Import Policy, 1978-79 subject to the conditions laid down therein.

4. It may be clarified that an Actual User (Industrial) eligible to import goods under Open General Licence can also utilise the services of an Association of Actual Users or a Co-operative Society of which he is a member, as laid down in the Department of Commerce Public Notice No. 31-ITC(PN)/78 dated the 15th May, 1978.

K.V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports

